

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३९७] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर ४, १९६९/अग्रहायण १३, १८९१
 No. 397] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 1969/AGRAHAYANA 13, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY

ORDER

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 4th December 1969

S.O. 4860/IECA/3/5/69.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely:—

1. This Order may be called the Imports (Control) Fifth Amendment Order, 1969.
2. In Schedule I to the Imports (Control) Order, 1955—
 - (i) In Part V, the following sub-serial number and entry shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Name of the article	Item of the First Schedule to Indian Tariff Act, 1934
34-37 (i)	Ceramic colours.	..

- (ii) In Part V, for S. No. 34—37(j) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3
34-37 (k)	Other manufactured paints, distempers, varnishes and lacquers.	.

[No. 8/60]

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports